



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6—जनवरी 12, 2007 (पौष 16, 1928)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6—JANUARY 12, 2007 (PAUSA 16, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग, और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	1
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	1
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Page No. 1	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	Page No. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1 *
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1		
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2006

संकल्प

सं. क्यू/हिंदी/621/21/2006--

दिनांक 8 फरवरी, 2005 के संकल्प सं. क्यू/हिंदी/621/88/98 में आंशिक संशोधन करते हुए विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य(लोक सभा) और श्रीमती कमला मनहर, संसद सदस्य (राज्य सभा) के स्थान पर क्रमशः कुंवर मानवेन्द्र सिंह, संसद सदस्य(लोक सभा) और श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा, संसद सदस्य(राज्य सभा) को नामित किया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा नामित दो गैर-सरकारी सदस्यों, श्री हिमांशु जोशी और डा० वेद प्रताप वैदिक के स्थान पर श्री अलोक मेहता और श्री बाल कवि बैरागी को विदेश मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की शेष अवधि के लिए नामित किया जाता है। समिति के कार्य, कार्य क्षेत्र और कार्यकाल यथावत रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए:

राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखापरीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, समिति के सभी सदस्य और भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वी. पी. हरन
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

सं. 27-39/99-पुस्तकालय--

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता का इस प्रतिष्ठान के नियमों और विनियमों के नियम 3 और 6 के प्रावधानों के अनुसार एतद्वारा निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है। उक्त प्रतिष्ठान का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इसे प्रतिष्ठान की प्रथम बैठक की तारीख से शुरू हुआ माना जाएगा।

अध्यक्ष

श्री बादल के. दास, सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सदस्य

1. डॉ. वी. वेंकटप्पैय्या, 4-22-27, ईटानगरम, तेनाली-522201, आंध्र-प्रदेश।
2. श्रीमती कल्पना दासगुप्ता, डी-13, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-I, नई दिल्ली-110049.
3. डॉ. (श्रीमती) हर्षा पारेख, 3, भवेश्वर सागर, 20, नेपियन सी रोड, मुम्बई-400036.
4. प्रो. एम शंकर रेड्डी, फ्लैट नं. जी आई, श्री साई अपार्टमेन्ट्स, एरामंजिल, हैदराबाद-500082.
5. डॉ. जे पी दास, 305, एस एफ एस, हौज खास, नई दिल्ली-110016.
6. श्री प्रदीप भट्टाचार्य, 59-ए, पालम एवेन्यू, प्रथम तल फ्लैट नं. 4, कोलकाता-700019
7. श्री आलोक मेहता, ए-16, नवभारत टाइम्स अपार्टमेन्ट्स, मयूर विहार फेस-I, दिल्ली-110091.
8. डॉ. मिहिर भट्टाचार्य, बी-2/3, के एम डी ए काम्प्लेक्स, 39-ए, प्रिंस गुलाम मुहम्मद शाह रोड, कोलकाता-700095.

9. प्रो. एच. एस. शिवप्रकाश, स्कूल ऑफ आर्ट एण्ड एस्थेटिक्स, जे एन यू, नई दिल्ली-110067.
10. श्री पालोड रवि, श्रीगंगा, सस्थामंगलम, तिरुवनन्तपुरम, केरल।
11. श्री प्रो. जे वी. नाईक, "स्वरगंगा", चैतन्य नगर, वकोला ब्रिज के नजदीक, सान्ताक्रूज (पूर्व), मुम्बई-400005
12. श्रीमती निरुपमा बारगोहेन, जोर पुखुरीर पार, हेम चंद्र रोड, गुवाहाटी.
13. प्रो. (डॉ.) इम्तियाज अहमद, बी-361, वसंत कुंज एन्क्लेव, नई दिल्ली-110070.
14. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. भारतीय पुस्तकालय संगठन के प्रतिनिधि, दिल्ली-110009.
16. साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि, रबीन्द्र भवन, नई दिल्ली.
17. नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रतिनिधि, नई दिल्ली-110016.
18. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नामित व्यक्ति।
19. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नामित व्यक्ति।
20. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नामित व्यक्ति।
21. निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता, पदेन सदस्य सचिव.

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2006

सं. 27-39/99-पुस्तकालय--

इस मंत्रालय की दिनांक 17.11.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, संघ सरकार एतद्वारा श्री रघु मेनन, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है।

के. पी. के. नम्बिस्सन
अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

संकल्प**विषय : विश्व-स्मृति कार्यक्रम हेतु भारतीय राष्ट्रीय समिति।**

सं. एफ-2/79/2006-यूनेस्को--

संस्कृति मंत्रालय और इसके विविध संगठन, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों के संरक्षण और प्रसार में संलग्न हैं। संस्कृति मंत्रालय इंडियन नेशनल कमीशन फॉर को-ऑपरेशन विद यूनेस्को के माध्यम से यूनेस्को के साथ भी संपर्क स्थापित करता है और देश की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए विश्व-स्मृति रजिस्टर में शामिल करने हेतु विचार करने के लिए मामलों को सिफारिश करता है। अन्तरराष्ट्रीय रजिस्टर हेतु प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें नामित करने के उद्देश्य से, विश्व-स्मृति कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करते हुए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है :-

1.	अध्यक्ष को इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को द्वारा मनोनीत किया जाएगा।	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार	सदस्य
3.	महानिदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय	सदस्य
4.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	निदेशक, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन	सदस्य
6.	निदेशक, राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला	सदस्य
7.	निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय	सदस्य
8.	निदेशक, राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान	सदस्य
9.	संयुक्त सचिव (संस्कृति) (अभिलेखागारों का कार्य देख रहे हैं)	सदस्य
10.	प्रो. लोकेश चंद्र, प्रसिद्ध विद्वान	सदस्य
11.	प्रो. कुटुंब शास्त्री, कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संगठन	सदस्य
12.	डॉ. इम्तियाज अहमद, निदेशक, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना	सदस्य
13.	डॉ. डब्ल्यू. एच. सिद्दीकी, ओ एस डी रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर	सदस्य
14.	डॉ. रितुभाई शाह, एल डी जैन विद्या संस्थान, अहमदाबाद	सदस्य

विश्व-स्मृति कार्यक्रम के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के कार्यकलापों में, प्रचार, संवर्धन तथा जागरूकता में वृद्धि और सरकार, व्यवसायी संघों तथा राष्ट्रीय स्तर पर अभिरक्षक संस्थाओं के साथ सहयोग को विकसित करने के साथ अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर के लिए नामांकन की शुरुआत करना और/अथवा नामांकनों का समर्थन करना शामिल होगा।

समिति के पास समिति के सदस्यों को सहयोजित करने की शक्ति होगी।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

के. जयकुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 19th December 2006

RESOLUTION

No. Q/Hindi/621/21/2006—

In partial modification of Resolution No. Q/Hindi/621/88/98, dated 8 Feb. 2005, Shri Kunwar Manvendra Singh, MP (Lok Sabha) and Shri Dwijendra Nath Sharma, MP (Rajya Sabha) are nominated as members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of External Affairs in place of Shri Naveen Jindal, MP (Lok Sabha) and Smt. Kamla Manhar, MP (Rajya Sabha) respectively. Shri Alok Mehta and Shri. Balkavi Bairagi are nominated as non official members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of External Affairs in place of Shri Himanshu Joshi and Dr. Ved Pratap Vaidik for the remaining term of the Committee. The functions, jurisdiction and tenure of the Committee will remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the following:-

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of the Parliament on Official Language, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenue, All members of the Samiti and All Ministries and Departments of the Govt. of India.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. HARAN
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 17th October 2006

No. 27-39-99-Lib.—

The Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata is hereby reconstituted as follows in accordance with the provisions of Rules 3 and 6 of the Rules and Regulations of the Raja Rammohun Roy Library Foundation. The term of office of the Foundation shall be three years and deemed to have commenced from the date of its first meeting.

CHAIRMAN

Shri Badal K.Das, Secretary, Ministry of Culture
Government of India, New Delhi.

MEMBERS

1. Dr. V. Venkatappaiah, 4-22-27, Ithanagaram, TENALI-522201, Andhra Pradesh
2. Smt. Kalpana Dasgupta, D-13, South Extension, Part-I, New Delhi -110049
3. Dr.(Smt). Harsha Parekh, 3, Bhaveshvar Sagar, 20, Nepean Sea Road,
Mumbai-400036.
4. Prof. M. Sankara Reddy, Flat No. GI, Shri Sai Appts, Erramanzil,
Hyderabad-500082.
5. Dr. J P Das, 305, SFS, Haus Khas, New Delhi-110016.
6. Shri Pradip Bhattacharya, 59-A, Palm Avenue, Ist Floor, Flat No.4,
Kolkata-700019
7. Shri Alok Mehta A-16, Navbharat Times Appts, Mayur Vihar Phase I,
Delhi-110091
8. Dr.Mihir Bhattacharya, B-2/3, KMDA Complex, 39-A, Prince Gulam
Muhammed Shah Road, Kolkata-700095
9. Prof. H. S. Shivaprakash, School of Art and Aesthetics, JNU, New Delhi-110067
10. Shri Palode Ravi, SREEGANGA, Sasthamangalam, Thiruvnathapuram, Kerala
11. Shri Prof. J V Naik, "Swaraganga", Chaitanya Nagar, Near Vakola Bridge,
Santacruz (East), Mumbai-400005
12. Smt. Nirupama Bargohain, Jor Pukhurir par, Hem Chandra Road, Guwahati.
13. Prof. (Dr.) Imtiaz Ahmad, B-361, Vasant Kunj Enclave, New Delhi-110070

14. Joint Secretary, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi
15. Representative of Indian Library Association, Delhi-110009.
16. Representative of Sahitya Akademi, Rabindra Bhawan, N. Delhi
17. Representative of National Book Trust, New Delhi-110016.
18. Nominee of Department of Secondary and Higher Education, M/HRD, GOI, New Delhi.
19. Nominee of Ministry of Social Justice and Empowerment, GOI, New Delhi.
20. Nominee of the Ministry of Finance, GOI, New Delhi.
21. Director, Raja Rammohun Roy Library Foundation, Kolkata, Ex-officio Member Secretary.

K. JAYAKUMAR
Joint Secy.

New Delhi, the 22nd November 2006

No. 27-39/99-Lib.—

In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 17th November, 2006, Union Government hereby notify Shri Raghu Menon, Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Culture as Member of the reconstituted Raja Rammohun Roy Library Foundation for a period of three years with immediate effect.

K. P. K. NAMBISSAN
Under Secy.

New Delhi, the 21st December 2006

RESOLUTION**Subject : Indian National Committee for the Memory of the World Programme.**

No. F-2-79/2006-UNESCO—

Ministry of Culture and its various organizations have been engaged in the preservation and dissemination of the various forms of cultural expressions. Ministry of Culture also interacts with UNESCO through Indian National Commission for Co-operation with UNESCO and recommend cases for consideration for inclusion in the Memory of the World Register for Safeguarding of the Documentary Heritage of the Country. With the objective to consider and nominate the proposals for the International register, it has been decided to set-up Indian National Committee for the Memory of the World Programme comprising the following: -

- | | | | |
|-----|---|---|----------|
| 1. | Will be nominated by the Indian National Commission for co-operation with UNESCO. | - | Chairman |
| 2. | Director General, National Archives of India | - | Member |
| 3. | Director General, National Museum | - | Member |
| 4. | Representative of Indira Gandhi National Centre for Art | - | Member |
| 5. | Director, National Mission for Manuscripts | - | Member |
| 6. | Director, National Research Laboratory for Conversation | - | Member |
| 7. | Director, National Library | - | Member |
| 8. | Director, Raja Ram Mohun Roy Library Foundation | - | Member |
| 9. | Joint Secretary (Culture) (looking after Archives) | - | Member |
| 10. | Prof. Lokesh Chandra, Eminent Scholar | - | Member |
| 11. | Prof. Kutumb Sastri, Vice Chancellor Rashtriya Sanskrit Sangathan | - | Member |
| 12. | Dr. Imtiaz Ahmed, Director Khuda Baksh Oriental Public Library Patna | - | Member |
| 13. | Dr. W.H. Siddiqui, OSD Rampur Raza Library, Rampur | - | Member |
| 14. | Dr. Ritubhai Shah, LD Institute of Jainology, Ahmedabad | - | Member |

The Activities of the Indian National Committee for the Memory of the World Programme will include initiating and/or and supporting nominations for the international register, together with publicity, promotion and awareness raising, and evolving cooperation with Government, professional associations and custodial institutions at the national level.

The Committee shall have the powers to co-opt the Members for the Committee

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India.

K. JAYAKUMAR
Joint Secy.